







781, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh - 160 002 INDIA Ph.: 0172- 4680800, 2638781

Fax: 0172-2652242

E-mail: corporate@indswift.com CIN No.: L24230CH1986PLC006897

Ref.:ISL:CH:2023:

The President, Corporate Relationship Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai 400 001 Date: 10th November, 2023

The Vice President,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/2, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400 051

BSE Scrip Code: 524652 NSE Sym

NSE Symbol: INDSWFTLTD

SUB: <u>PUBLICATION OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE</u>

QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2023

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the Newspapers 'Financial Express' and 'Jansatta' dated 10th November, 2023 in which the Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2023 have been published by the Company.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You.

For IND SWIFT LIMITED

GINNY UPPAL COMPANY SECRETARY

Encl.- As above





FINANCIAL EXPRESS



Place: Chandigarh

Date: 09.11.2023

Ind-Swift Ltd.

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH, SEPT. 2023

Regd. Off.: 781, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160002. Ph. 0172-2638781/4680800 Fax: 0172-2652242/2655406. E-mail: corporate@indswift.com Website: www.indswiftltd.com | CIN: L24230CH1986PLC006897

(in Lacs) STANDALONE CONSOLIDATED Quarter Half Year Year **PARTICULARS** Ended 31.03.2023 30.09.2022 31.03.2023 30.09.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 30.09.202 30.09.2022 30.06.2023 30.06.2023 30.09.2023 UnAudited UnAudited UnAudited UnAudited UnAudited Audited UnAudited UnAudited UnAudited UnAudited UnAudited Audited Total Income from Operations 11906.98 15416.64 10468.47 27323.62 20086.65 42281.25 11906.98 10468.47 27323.62 20086.65 42281.25 15416.64 (3454.20)(834.31)(2602.71)(1070.55)236.24 (1059.07)(834.31)(2602.71)Profit(loss) before exceptional Items and Tax 1059.07 (3454.20)(1070.55)236.24 Profit(loss) before Tax (After exceptional items (2602.71)(1070.55)236.24 1059.07 (834.31)2603.67 2603.67 (1070.55)236.24 (1059.07)(834.31)(2602.71)2603.67 Net Profit /(Loss) for the period (1070.55)236.24 (1059.07) (834.31)(2602.71)2603.67 (1070.55)236.24 (1059.07) (834.31)(2602.71)(after tax & Exceptional items) 1059.07 (834.31)(2602.71)(1070.55)(1059.07)(834.31) (2602.71)Total Comprehensive Income for the Period (1070.55)236.24 1567.61 236.24 1567.61 Paid up Equity Share Capital (Face Value of 1083.29 1083.29 1083.29 1083.29 1083.29 1083.29 1083.29 1083.29 1083.29 1083.29 1083.29 1083.29 Rs. 2/- per Share) Reserves excluding revaluation reserves -71553.17 -71553.17EPS (of Rs. 2/- each) (Not annualised) (1.98)(1.96)(1.54)(4.81)(1.98)(1.96)(1.54)(4.81)0.44 4.81 0.44 4.81 Basic (1.54)Diluted (1.98)0.44 (1.96)(4.81)(1.98)(1.96)(1.54)(4.81)4.81 0.44 4.81

Note: (1) The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated financial results for the quarter and half year ended 30th September 2023 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEB) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30th September 2023 are available on the Stock Exchange websites, www bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.indswift.com (2) The Standalone & consolidated results for the quarter and half year ended 30th September 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 09.11.2023. For Ind Swift Limited

Regd. Office: 274, Dhandari Khurd G.T. Road Ludhiana- 141014 CIN: L51909PB2000PLC023679 Tel: +91-161-7111117, Fax: +91-161-7111118, Email: cs@selindia.in

Website: www.selindia.in

SEL MANUFACTURING COMPANY LIMITED

Extract of Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter & Half Year ended on 30th September, 2023 (Rs. In Lakhs)

Particulars		Consolidated							
	73	Quarter	Ended	Half Yea	r Ended	Year Ended			
:0:		30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	Financial Year Ended 31.03.2023 (Audited)			
1	Total Income from operations	9,648.58	8,172.01	33,591.45	20,434.22	57,422.97			
2	Net Profit(+)/ (Loss)(-) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(5,935.00)	(3,586.63)	(12,101.55)	(8,852.02)	(19,612.69			
3	Net Profit(+)/ (Loss)(-) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6,158.03)	(2,782.05)	(12,349.51)	(7,866.98)	(18,591.22			
4	Net Profit(+) /(Loss)(-) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6,158.03)	(2,782.05)	(12,349.51)	(7,866.98)	(18,591.22			
5	Total Comprehensive income (+)/(Loss)(-) for the period [Comprising Profit (Loss) for the period (after tax) after Minority Interest and Other Comprehensive Income (after tax)]	(6,597.44)	(3,640.23)	(13,225.10)	(9,598.31)	(11,523.19			
6	Equity Share Capital	3,313.47	3,313.47	3,313.47	3,313.47	3,313.47			
7	Other Equity (Reserves)	(34)	5545	(1,685.56)	13,473.82	11,539.54			
8	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/- each) (in Rs.) (not annualised)								
	a) Basic	(18.58)	(8.40)	(37.27)	(23.74)	(56.11			
	b) Diluted	(18.58)	(8.40)	(37.27)	(23.74)	(56.11)			

1. The unaudited financial statements for the quarter ended on September 30, 2023 and year to date from April 01, 2023 to September 30, 2023 have been taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 9th November, 2023. The information presented above is extracted from the unaudited financial statements. The financial statements are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016. The Parent Company underwent a corporate insolvency resolution process under section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code,

2016. A Resolution Plan was approved by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench (Approved Plan), vide their orders dated 10th February, 2021 and the implementation of the Approved Resolution Plan was concluded in the year 2020-21 with the re-constitution of the Board of Directors.

2(a). Pursuant to the Corporate Insolvency Resolution Process, the Banks and financial institutions have not taken appropriate action regarding the declassification of the parent company under the list of Defaulters in the records of RBI, rating agencies, Central Fraud Registry, ECGC, non-cooperative borrower, etc. The same was stipulated to be done within 30 days from the effective date as per the approved resolution plan. The parent company filed an application before the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench regarding not taking appropriate action by the banks & financial institutions within specific time period in this matter. 2(b). As per resolution plan approved and implemented in financial year 2020-21, the parent company was stipulated to bring Rs. 6,500 lakhs for working capital and operational needs within first year of operation against which the parent company brought only Rs. 2,500 lakhs. Post implementation of the resolution plan the interest and installments of the parent company were being served without any delay till the period ended 30th June, 2023. However, the parent company is unable to infuse working capital amounting to Rs. 4,000

2(c). Consequently, the parent company's performance is sub-optimal and falls short of expectations. Specifically, the parent company is facing a multitude of intricacies hindering the successful pursuit of its business operations in a profitable and economically advantageous manner. An analysis of the performance of the parent company reveals that the parent company has not been able to fully harness its operational capacity to its fullest potential. The parent company is currently operating at a deficit and experiencing severe liquidity stress. This dire financial predicament has rendered the parent company incapable of fulfilling its various financial obligations, including statutory payments amounting to Rs. 130 lakhs but not limited to the payment of interest, and servicing outstanding loans.

2(d). The parent company has not repaid the quarterly installment due on 30th September, 2023 amounting to Rs. 901 lakhs and also has not paid the monthly interest due for the period July 2023 to September 2023 amounting to Rs. 1,453.12 lakhs. The parent company filed an application before the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench regarding the issue of declassification etc. as mentioned in para 2(a). The Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench has passed an interim ex parte order vide dated 16th August, 2023 with direction, granting a complete moratorium to the parent company in the payment of amounts as per the plan including payment of deferred amount and interest of Term Loan and all other payments to the banks, till the next date of hearing. As per said order the parent company is also directed to infuse the necessary funds as provided for in the approved resolution plan within a reasonable period after the Banks have complied with direction to declassify the parent company from various lists as mentioned in paragraph 2(a).

3. The shareholders of the parent company have passed the resolution regarding the Initiation of Corporate Insolvency Resolution Process under Section 10 (including any modification or re-enactment thereof), if any, of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 in its Extra Ordinary General Meeting held on 13th October, 2023.

4. As part of the Resolution Plan, the non-interest bearing secured loan shall be repaid to the Financial Creditors from the proceeds of the sale of the Identified Assets. All of the Identified Assets have been sold and the loan has been repaid. The transfer one property is still pending to be registered. Payments received from the buyer for the property are classified as liabilities directly associated with assets that are held for sale.

5. Mr. Vinod Kumar Goyal had resigned from the post of Chief Executive Officer & KMP of the parent company from the closing of business hours on 20th October, 2023

6. The Company has only one Reportable Segment i.e. Textiles, hence Segment Reporting is not applicable. 7. During the quarter, M/s SEL Aviation Private Limited, the subsidiary of the Company applied for voluntary strike off and the status of

the subsidiary company has changed from "Active" to "Under Process of Striking Off". However the confirmation from the Ministry of Corporate Affairs is still awaited. 8. Figures relating to the previous period/year have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary, to correspond with the

current period/year's disclosures.

Key Standalone financial information is given below:

(Rs. In Lakhs)

Particulars		Particular							
2001000		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended			
		30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	Financial Year Ended 31.03.2023 (Audited)			
1	Total Income from operations	9,648.58	8,172.01	33,591.45	20,434.22	57,422.97			
2	Profit(+)/(Loss)(-) before Tax	(6,158.04)	(2,782.05)	(12,349.51)	(7,866.95)	(18,591.15)			
3	Profit(+)/(Loss)(-) after Tax	(6,158.04)	(2,782.05)	(12,349.51)	(7,866.95)	(18,591.15)			

The above results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their respective meeting held on 09th November, 2023.

Date: 09/11/2023

Place: Ludhiana

financialem epam.in

For and on behalf of SEL Manufacturing Company Limited



सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक Sarva Haryana Gramin Bank

प्रायोजक : पंजाब नेशनल बैंक 🐸

Branch Office: Sirsa Road, Fatehabad

RULE 8(1) POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) Whereas, The Undersigned Being the Authorised Officer of the SARVA HARYANA GRAMIN BANK under the

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the dated 01.06.2023 mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/date of receipt of the said notice(s). The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in

general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 09th day of November of the year 2023.

The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and

any dealing with the property/ies will be subject to the charge of SARVA HARYANA GRAMIN BANK, SIRSA for the amounts and interest thereon. Name of the

Branch/Account/ Borrower (Owner)	Description of the property mortgaged	demand notice	possession notice affixed	Outstanding as on 31.05.2023
Sarva Haryana gramin bank, Sirsa	House bearing Property Tax ID No. SRS/B-08/504 (Old House Tax	01.06.2023	09.11.2023	Rs.892972.58/- + further interest & expenses
Kumar S/o Dalip and ShriNeetu S/o Dalip	Unit No. B-8/437), area measuring and measuring as on; East: House of Amar Singh SO Shri Ramji I North:Gali,19', Situated in Gali D	of Master Da Lal, 35', Sout	iyal Chand & Fal h: House of N	kir Chand, 35', West: House lanjit Singh Chawla, 19',
Tehsil and Distt. Sirsa,	Vide sale deed no. 9539 dtd. 10.03.	2021 duly re-	gd. Before SR Sir	sa

Authorised Officer Date: 09/11/2023 Place: Sirsa Sarva Haryana Gramin Bank, Barnala Road, Sirsa



(S.R. Mehta)

Chairman

Regd Office: G.T. Road West Ldh, Punjab 141008. | CIN-L17115PB1989PLC009315 Tele-0161-2744500, Email- info@lwsknitwear.com | Website-www.lwsknitwear.com

Quarter Ending Year Ended Figures Quarter Ending

0.58

0.58

0.13

0.13

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / HALF YEAR ENDED 30.09.2023

30.09.2023	31.03.2023	30.09.2022
1683.53	6261.53	1135.15
9.64	37,29	8.17
9.64	37.29	8.17
7.17	29.37	6.77
7.17	29.37	6.77
505.84	505.84	505.84
	9.64 9.64 7.17 7.17	1683.53 6261.53 9.64 37.29 9.64 37.29 7.17 29.37 7.17 29.37

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 08, 11, 2023
Figures are in Lakhs Rupees except Face value of Equity Shares and EPS, which are in Rupees. There is only one Segment, namely, yarns, knitted cloth and garments, which is the primary reportable segmen. The previous period figures have been regrouped (rearranged, wherever considered necessary.

By the order of Board of Directors For LWS KNITWEAR LIMITED Sd-(GIRISH KAPOOR) DIN: 01870917 Managing Director PLACE: LUDHIANA DATE: 08-11-2023



INDIAN SUCROSE LIMITED

CIN: L15424PB1990PLC010903 Regd. Office & Works: G.T. Road, Mukerian-144211, Distt. Hoshiarpur (Punjab)

Phone: +91-9115110651/52 Email ID: isl.investor@yaducorporation.com, Website: www.muksug.in

NOTICE FOR ADJOURNMENT OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29(1) (a) read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & disclosure Requirements) Regulations 2015 ("LODR Regulations") Notice is hereby given that due to lack of quorums of the members of Board/Committee(s) of the company, the committee(s)/Board Meeting has been Adjourned at the same time, day and place in the next week as per the provision of section 174(4) of the Companies Act, 2013. Subsequently the adjourned meeting will be held on Thursday, 16th November, 2023 at 3:00 P.M at the registered office of the Company a G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab- 144211 at inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and Half-year ended 30th September, 2023 along with other agenda items, if any, with the permission of the chair. Further, in terms of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of

Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 and Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the closure of trading window in dealing with securities of the company for Directors and Specified employees is extended upto 18th November, 2023 and will re-open on 19th November, 2023.

By Order of the Board of Director For Indian Sucrose Limited

Kunal Yadav

DIN-01338110

(Managing Director)

Place: Mukerian

Date: 09.11.2023

'IMPORTANT'

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations of individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

SURAJ INDUSTRIES LTD CIN: L26943HP1992PLC016791

Regd. Office: Plot No. 2, Phase III, Sansarpur Terrace, Kangra, Himachal Pradesh-173212 Corporate Office: F-32/3, Second Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 Website: www.surajindustries.org Email ID: secretarial@surajindustries.org

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

	FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMB						(in Lacs)
			Standalone		1	0	
S. No.	Particulars	Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended
		30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)
1	Total income from operations (net)	1256.49	3109.71	1181.55	1278.87	3132.09	1181.55
2	Profit / (Loss) from ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	49.91	196.00	175.69	134,17	426.73	209.12
3	Profit / (Loss) before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	49.91	196,00	175.69	134.17	426.73	209.12
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	35.52	140.56	131.28	119.78	371.29	164.71
5	Total Comprehensive Income for the period	35.52	140.56	131.28	119.78	371.29	164.71
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	1229.42	1229.42	1229.42	1229.42	1229.42	1229.42
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year)						
8	Earnings per share(Face value of Rs. 10/- Each) Before and After Extraordinary items – Basic & Diluted (*) Not Annualized	*0 29 *0 28	*1.14 *1.09	*1,14 *1,09	*0.96 *0.91	*3.00 *2.87	*1.44

Note:

The above is an extract of the detailed format of Quatrely Financial Results filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quartrely Financial Results is available on the stock exchange and on the Company's website www.surajindustries.org.

These results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of directors at their respective meetings held on November 08, 2023. These financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) (IND AS) prescribed under Section 133 of the of the Companies Act , 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

Reserves(excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year) as on 31.03.2023 were Rs. 2386.99 (Standalone) and Rs. 2651.08 (Consolidated).

> By order of the Board For Suraj Industries Ltd

Surai Prakash Gupta Managing Director DIN: 00243846





Date: 08.11.2023

WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LIMITED

Regd.Office: 1, Industrial Area, Baddi, Distt. Solan (H.P.) Ph.: 01795-244045 Fax. 01795-244287 CIN: L17115HP1980PLC005647 E-mail: cswtil@winsometextile.com, www.winsometextile.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER.2023

	(Rs. in Lacs except EPS Data)							
Particulars	0	uarter Ende	d	Half Yea	r Ended	Year Ended		
	30.09.2023 (Un-Audited)	30.06.2023 (Un-Audited)	30.09.2022 (Un-Audited)	30.09.2023 (Un-Audited)	30.09.2022 (Un-Audited)	31.03.2023 (Audited)		
	100000000000000000000000000000000000000	Aremost position		700000000000	0.100000000	100000000000000000000000000000000000000		
Total Income from operations	20304	20754	23093	41058	45225	87791		
Net Profit before tax, exceptional Items and/or extra ordinary items	591	602	964	1193	2504	3451		
Net Profit before tax (after exceptional items and/or extra ordinary items)	591	602	964	1193	2504	3451		
Net Profit / (Loss) after tax	428	461	650	889	1684	2452		
Total Comprehensive Income	425	460	655	885	1692	2441		
Paid-up equity share capital (Face Value-Rs. 10/- each)	1982	1982	1982	1982	1982	1982		
Reserves		(#S)	*		*	23641		
Earning Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinuing operations) (not annualized)								
- Basic	2.14	2.32	3.31	4.46	8.54	12.32		
- Diluted	2.14	2.32	3.31	4.46	8.54	12.32		

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Half Year ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of said Quarterly & Half Yearly Un-Audited Financial Results is available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and on the Company's website i.e. www.winsometextile.com.

For and on behalf of the Board

Ashish Bagrodia Chairman & Managing Director

DIN: 00047021

Naveen Arora Whole Time Director DIN: 09114375

Date: 09.11.2023 Place : Chandigarh













न्यूनतम- 8.0

मोसम

10 नवंबर, 2023 जनसता

पंजीकृत कार्यालय : वर्नाट में. 2, फेरा III, मंत्रातपुर टेंग्य, कांगड़ा, हिमायल प्रदेश-173212 बीकींट कार्यांतव : एक-32/3, इसर तत, डोखता इंडीएयल एप्सि, फेन्ट-11, वई दिल्ली-110020 वेबमाहर : www.surajindustries.org: र्व-केन आर्थि : secretarial@surajindustries.org 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैण्डएलोन एवं समेकित वितीय परिणामों के विवरणों का सार

क्रम	विवरण		स्टेण्डएलॉन			समेकित	
村.		समाप्त तिमाही	समाप्त छमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमासी	समाप्त छमाही	समाप्त छमाही
		30.09.2023 (अनेकेक्षित)	30.09.2023 (अनंकेशित)	30.09.2022 (अनेकेक्षित)	30.09.2023 (अनंकेक्षित)	30.09.2022 (अनेकेक्षित)	30.09.2022 (अनंकेक्षित
1	परिचालनों से कुल आप (शुद्ध)	1256.49	3109.71	1181.55	1278.87	3132.09	1181.55
2	सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	49.91	196.00	175.69	134.17	426.73	209.12
3	कर से पूर्व लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	49.91	196.00	175.69	134,17	426.73	209.12
4	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	35.52	140.56	131.28	119.78	371.29	164.71
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	35.52	140.56	131.28	119.78	371.29	164.71
6	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य र. 10/- प्रति)	1229.42	1229.42	1229.42	1229.42	1229.42	1229.42
7	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मृत्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)						
8	आव प्रति शेयर (रू. 10/- प्रति का) (सम मृत्य रू. 10/- प्रति) अस्तधारण मदौं से पूर्व तथा बाद-मृल एवं तरल (*) वार्षिकीकृत नहीं	*0.29 *0.28	*1.14	*1.14	*0.96	*3.00 *2.87	*1.44 *1.37

स्थान : नई दिल्ली

तिवि । 8.11.2023

PARTICULARS

Total Income from Operations

Net Profit /(Loss) for the period

(after tax & Exceptional items)

Rs. 2/- per Share)

Diluted

क्र.

सं.

Date: 09.11.2023

Profit(loss) before exceptional Items and Tax

Profit(loss) before Tax (After exceptional items

Total Comprehensive Income for the Period

Paid up Equity Share Capital (Face Value of

Reserves excluding revaluation reserves

EPS (of Rs. 2/- each) (Not annualised)

विवरण

1 प्रचालनों से कुल आय (सकल)

लाभ/(हानि) के शेयर्स से पूर्व)

(हानि) के शेयर्स के बाद)

1) उपरोक्त विवरण सेवी (सुचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेका) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही विशीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही विशीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा कम्पनी की वेबसाईट www.surajindustries.org, पर उपलब्ध है।

🤈 इन परिणामों को ऑडिट कमिटी हारा समीक्षा को गई तथा ८ नवम्बर, 2023 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में निदेशक मंडल हारा अनुमोदित किये गये। इन परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमायली, 2015 (यथा संजीचित) (इंड एएस), कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत निर्देष्ट, तथा लागू होने वाली सीमा तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखा सिद्धोती तथा नीतियों के अनुसार नैयार किया गया है।

. 31.03.2023 को आर्राधत (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के तनुसार पुनर्मृल्यांकन आर्राधतों को छोड़कर) रु. 2386.99 (स्टैण्डएलॉन) तथ र. 2651.08 (समेकित) थी।

बोर्ड के आदेश है सूरज इंडस्ट्रीज के लिये

(म. सखी मे)

सरज प्रकाश गुजा

DIN: 00243846

ई-नीलामी बिक्री सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड क्षांबहरून: U67100MH2007PLC174759

रिटेल सेंट्रल एवं रांजि कार्यालयः एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098 वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना नियम 8 (5) और (8) के प्रावधान को सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पर्दे।

विवास हार्जींस काइनेल विविदेश ('अलाइनर') की वितीय सुविधाएं एशलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सिमिटेश (इसके बाद 'ईएआएसी/अलाइनी' के रूप सदर्वित) को सीची गई है. जो स्पन्त रूप से परिसर्वित ईएआएसी-इस्ट-एमसी-अर्ग के इस्टी के रूप में कार्य कर रही है। दिए गए कॉलम में, एक असाइनमें हं अनुसरण में ईएआरसी ने असाइनर के स्थान पर कारम रखा और सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया। ईएआरसी ने सुरक्षित ऋणदार के रूप में अपनी क्षमता राज्येची अधिनियम की धारा १३(६) और उसके लहत नियमों के तहत नीचे दल्लिकित अचल सुरक्षित संपत्तियों पर करता कर लिया था। एतत द्वारा आम जनता को और विशेष कर से तामरकर्ता, नार-जागरकर्ता, कान्त्री प्रत्याधिकारियों और शरदंर (ओ) को 30 दिनों का नोटिश दिया जाता है हैं नीचे वर्णित अंचल सुरक्षित वर्णात संनदार के पक्ष में मिन्दी रही थे, विसावत श्रीतिक करता है स्ट्रिक्स ऋणवाता के प्रतिकृत अधिकार (एवंद) द्वारा विश् नया है. नीचे प्रतिनिक्षण शक्ति की वसूनी के लिए "जैसा है पता है" "जैसा है जो है" और "जो क्छ भी है" के अध्यान पर केवा जाएगा। ईएजानवी द्वारा जायरकार और गास्टर से प्राप्त किसी भी धन के लिए अतिरिक्त ब्याज और अन्य सामी / लागतों के साथ करीती की जायेगी तथा संपत्ति के लिए आरक्षित गुल्य और बयान सक्ति नीचे उल्लिखन है। इसके द्वारा किसी भी पूर्व नीजमी मीटिस को ततकात प्रमाव में वापस निया/कपस स्थित जाता है और इस मीटिस पर विचार किस

政市	ऋग स्त्रता संख्या और	श्यारकर्ता/शह-तथा श्वर्ता/गारंटर वर्ग नाम	ट्रस्ट का नान	वैक और शाखा का नाम, खाता, संख्या और आईएफएससी कोड	06 11 2023 तक सूल बकावा	आरबित मूल्य (क्यरे में)	ई-जीताची के छिए राष्ट्री गई गुर्तिका संपत्ति का विकरण	नीलानी वी तिथि एवं समय	कन्दते का प्रकार
1	ऋण च्हाता संख्या १०४६६८१	प्रदीप कुशार/ रफीकन	ईएआरसी-पुनट एससी-उर1- दीवान शावसिय फाइनेंस तिमिटेड। (असाइनर')	अर्ध्यक्षीअर्ध्यक्षीआई वैक त्रिविटेड, वरीमन पॉइंट, (000406124814) आईएकएससी (CGC0000004	ष 20.84,787,10/-	9,00,000/-	90,000/-	12 12 2023 दोपशर 12:30 मजे	पीरिक

निरक्षी रखी गई संपत्ति कर विकरण: पर्राट कर काल गुकरा और पार्शल जिलाका सोवट नंबर 3494 / 2550, राजीनी नंबर 4668 में, राजारा नंबर 2636, (१–०) में सानित र because shower so out and product case week a wrone o week it in 50/400 fibror, when others where where it was fibror at other in others, would be the same क्षील बरवाल, जिल्हा हिन्दर, शरियाणा-१,25129 लिया है,

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

6	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	पूर्व नियुक्ति के अनुसार
5	संपर्क नंबर	18002868540
4	नीलामी का स्थान (नीलामी के लिए वेबसाझट)	ईमेलानी (https://auction.edelweissarc.in)
3	बेटियां जमा करने का स्थान	रिटेल सेंट्रल ऑफिस, मुंबई में (नीचे तरिलस्थित)
2	इंट्सरों जना करने की अतिम तिथि	नीलामी की तारीख से १ दिन पहले प्राप्त
_		

स्थानः दिल्ली

दिनांकः 10 11 2023 एक्सवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेंड के लि (ईएआरसी-ट्रस्ट-एससी-371 के लिए ट्रस्टी

Edelweiss

UnAudited

11906.98

(1070.55)

(1070.55)

(1070.55)

(1070.55)

1083.29

(1.98)

(1.98)

मुद्रा विनिमय घोटाले में दो आरोपी गिरफ्तार

करोड़ों की ठगी का शक, नागचला व पंजाब के जीरकपुर में दो कार्यालय सील

मडी, ९ नवबर (जनसत्ता)।

हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करंसी के नाम पर एक लाख लोगों को लूटा जा चुका है जिसमें निवेशकों से 2,500 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। मामला विधानसभा में उठने के बाद सरकार द्वारा आइपीएस अधिकारी अभिषेक दुल्लर की अध्यक्षता में गठित एसआइटी अभी तक इस मामले में चार मुख्य सरगनों सहित दो दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी यह मामला सुर्खियां में है और अब ऐसा ही ठगी का एक अन्य मामला सामने आया है जिसे मुद्रा विनिमय व्यापार (फोरेक्स ट्रेडिंग) के जरिए अंजाम दिया।

इस फर्जीवाड़े में 'क्यूएफएक्स' के मंडी में नागचला और पंजाब में जीरकपुर सहित दो कार्यालयों को सील कर दिया है। जांच में

MODERN DAIRIES LIMITED

Corporate Office: SCO 98-99, Sub City Centre, Sector 34, Chandigarh-160022

Quarter ended Half year ended

30" September, 30" September,

2023

(Unaudited)

16,377.06

2,336.36

2,336.36

2,335.89

10.02

10.02

10.02

10.02

DATRIES Registered Office & Works: 136 KM, G.T. Road, Karnal (Haryana)-132001

Extract of Unaudited Financial Results (Reviewed)

2023

(Unaudited)

8,062.37

2,134.07

2,134.07

2,335.89

9.15

9.15

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly

Unaudited Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full

format of the Quarterly and half yearly Unaudited Financial Results are available on the

CONSOLIDATED

Quarter

UnAudited

10468.47

(1059.07)

(1059.07)

(1059.07)

1059.07

1083.29

(1.96)

(1.96)

Half Year

UnAudited

27323.62

(834.31)

(834.31)

(834.31)

(834.31)

1083.29

(1.54)

(1.54)

समाप्त वर्ष

30 सितं-23 30 जून-23 30 सितं-22 30 सितं-23 30 सितं-22 31 मार्च-23 30 सितं-23 30 जून-23 30 सितं-22 30 सितं-23 30 सितं-22

अंकेक्षित

2,440.72

118.03

(163.71)

(163.71)

(163.71)

2,624.67

4,925.05

(0.64)

(0.64)

5,564.52

(819.12)

(819.12)

(819.12)

(822.41)

2,470.28

4,030.03

(3.32)

(3.32)

MODER

Particulars:

(Refer Notes below)

Total income from

Profit from ordinary

Profit for the period after tax

(after Extraordinary items)

Equity Share Capital

Reserve (excluding Revaluation Reserves as

sheet of previous year)

Earnings per share (for

continuing operations)

Earnings per share (for

& continuing operations)

stock exchange website (www.bseindia.com)

UnAudited

15416.64

236.24

236.24

236.24

236.24

1083.29

0.44

ब्रक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड CIN: L24232HP2002PLC000267 पंजीकृत कार्यालयः गांव किशनपुरा, नालागढ़ रोड, बद्दी, जिला सोलन (हि.प्र.)- 174101

ई-मेलः investors@brookslabs.net, वेबसाइटः www.brookslabs.net

समाप्त छमाही

अनंकेक्षित

3,094.90

(538.89)

(538.89)

(538.89)

(538.89)

2,470.28

4,030.03

(2.18)

(2.18)

4,016.47

64.76

64.76

64.76

64.76

2,624.67

3,207.61

0.25

0.25

shown in balance

(a) Basic

(b) Diluted

discontinued

(a) Basic

(b) Diluted

Place: Chandigarh

30.09.2023

UnAudited

11906.98

(1070.55)

(1070.55)

(1070.55)

(1070.55)

1083.29

(1.98)

(1.98)

Ind-Swift Ltd.

Regd. Off.: 781, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160002. Ph. 0172-2638781/4680800 Fax: 0172-2652242/2655406.

E-mail: corporate@indswift.com Website: www.indswiftltd.com | CIN: L24230CH1986PLC006897

UnAudited

20086.65

(2602.71)

(2602.71)

(2602.71)

(2602.71)

1083.29

(4.81)

(4.81)

Note: (1) The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated financial results for the quarter and half year ended 30th September 2023 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of

the SEB) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30th September 2023 are

available on the Stock Exchange websites, www bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.indswift.com (2) The Standalone & consolidated results for the quarter and half year ended

2,440.72

118.03

118.03

118.03

118.03

2,624.67

3,207.61

0.46

0.46

31.03.2023

Audited

42281.25

(3454.20)

2603.67

2603.67

1567.61

1083.29

-71553.17

4.81

4.81

30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

1,596.00

(81.89)

(81.89)

(81.89)

(81.89)

2,470.28

4,030.03

(0.33)

(0.33)

टिप्पणी: उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकृटीकरण अपेक्षांए) विनियमों, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलोन और कंसोलिडेटिड वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही

समाप्त तिमाही

अनंकेक्षित

1,575.75

(53.27)

(53.27)

(53.27)

(53.27)

2,470.28

3,207.61

(0.22)

(0.22)

स्टैंडएलोन

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH, SEPT. 2023

STANDALONE

Quarter

UnAudited

10468.47

(1059.07)

(1059.07)

(1059.07)

(1059.07)

1083.29

(1.96)

(1.96)

30.06.2023

UnAudited

15416.64

236.24

236.24

236.24

236.24

1083.29

0.44

0.44

30th September 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 09.11.2023.

स्टैंडएलोन और कंसोलिडेटिड वित्तीय परिणामों के संपूर्ण प्रारूप वेबसाईट www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.brookslabs.net पर उपलब्ध है।

Half Year

UnAudited

27323.62

(834.31)

(834.31)

(834.31)

(834.31)

1083.29

(1.54)

(1.54)

Date: 8" November, 2023

activities after tax

operations (net)



मंडी में पत्रकारों से बातचीत करतीं पुलिस अधीक्षक सौम्या सांबंशिवन।

पाया गया कि यह कार्यालय बिना लाइसेंस संचालित किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक मंडी सौम्या सांबशिवन ने इस बाबत गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इसमें कुछ शिकायतें मिलने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो बड़ा घोटाला सामने आया। इसमें अब तक 210 करोड़ रुपए की ठगी सामने आ चुकी है। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी का

₹ In lacs except EPS

Corresponding

3 months ended in

the previous year

30" September, 2022

(Unaudited)

4,268.72

423.57

423.57

2,335.89

1.82

1.82

1.82

1.82

A.K. Aggarwal

(Cin Lacs)

Year Ended

31.03.2023

Audited

42281.25

(3454.20)

2603.67

2603.67

1567.61

1083.29

-71553.17

4.81

(S.R. Mehta)

Chairman

कंसोलिडेटिड

4,016.47

64.76

(610.75)

(610.75)

(610.75)

2,624.67

4,925.05

(2.38)

(2.38)

1,821.79

(1,199.65)

(1,173.14)

(787.66)

(787.66)

2,470.28

6,278.73

(3.19)

(3.19)

समाप्त छमाही

अनंकेक्षित

3,537.56

(2,316.67)

2,470.28

6,278.72

(6.99)

(6.99)

(2,290.16) (3,837.82)

(1,727.43) (3,105.42)

(1,727.43) (3,108.71)

For Ind Swift Limited

समाप्त तिमाही

अनंकेक्षित

1,575.75

(53.27)

(447.03)

(447.03)

(447.03)

2,470.28

4,925.05

(1.81)

(1.81)

(Executive Director)

(DIN: 00486430)

For and on behalf of the Board of Directors

Half Year Ended

30.09.2022

UnAudited

20086.65

(2602.71)

(2602.71)

(2602.71)

(2602.71)

1083.29

(4.81)

(4.81)

एक जाल है जिसके तार पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली के अलावा गुजरात व गोवा तक फैले हैं। लाखों लोगों से ठगी हुई। पलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायतों

के आधार पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो दो लोगों को गिरफ्तार किया । इनमें एक आरोपी को तो दिल्ली एयरपोर्ट से पकडा है मौत के घाट उतार दिया। जहां से वह विदेश भागने की फिराक में था। तथा इस तरह के निवेशों से बचें।

बेटे पर मां की हत्या का आरोप, गिरफ्तार

धर्मशाला, ९ नवंबर (जनसत्ता)।

चंबा में भटियात उपमंडल की तारागढ के डंगाड़ी गांव में पैसे के लालच में एक बेटे मंगल बहादुर ने 62 वर्षीय मां माया देवी की हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात के पुलिस ने दफा 302 के तहत बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए चंबा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि मगंलवार को माया देवी की 32 वर्षीय बेटे मंगल बहादुर के साथ पैसों को लेकर लड़ाई हो गई और उसी दौरान उसने दराट से मां को

घर एकांत में होने के कारण दो दिन तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के इस बात का किसी को पता ही नहीं चला। 30 लाख रुपए के बैंक खाते 'सीज' कर जिस वक्त आरोपी ने यह हत्या की तब 82 दिए है। मुख्य आरोपी हत्थे नहीं चढ़ा है। वर्षीय उसका पिता कुल बहादुर रात का उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खाना खाने के बाद पुशशाला में सोने के लिए पुलिस अधीक्षक के अनुसार, क्रिप्टो करंसी चला गया था। अगले रोज जब कुल बहादुर की तरह मुद्रा विनिमय व्यापार के नाम पर जब घर लौटा तो आरोपी बरामदे में फैले भी मोटे मुनाफे के लालच में ठगा गया है। खून को साफ कर रहा था। उसके बाद पिता उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह मुनाफा ने ग्रामीणों को इस घटना के बारे में जानकारी देने का लालच देने वालों से सावधान रहें दी। लिहाजा मौके पर पहुंची चुवाड़ी थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पीजी परिसर में लड़की से छेड़छाड़

हमीरपुर, ९ नवंबर (जनसत्ता)।

हमीरपुर शहर के एक 'पेइंग गेस्ट' (पीजी) परिसर में रह रही लड़की ने पुलिस में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शहरभर में संचालित कई पीजी परिसर जांच के दायरे में आ गए हैं। पीड़ित लड़की हिमाचल प्रदेश में ही कांगड़ा की रहने वाली बताई जाती है जो यहां अपनी पढ़ाई कर रही है।

जानकारी के मृताबिक, हमीरपुर शहर में एक पीजी में रह रही युवती ने महिला थाना में शिकायत दी है कि वह जिस पीजी परिसर में रहती है, वहां रसोइये प्रताप ने उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला थाना में इस युवती की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।। अब इस पीजी परिसर का पंजीकरण और अन्य रेकार्ड भी पुलिस की

किसी भी व्यावसायिक गतिविधि संबंधी पीजी परिसर में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा का पहलू अहम होता है, वहां कौन-कौन रहता है इसकी जानकारी होना भी आवश्यक है। इसलिए इसका पंजीकरण कराया जाना चाहिए। नगर परिषद के पास परिसर के मालिक को पीजी संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए। उनके पीजी परिसर में कौन रहता है, इसकी जानकारी मुहैया कराना भवन मालिक की जिमेदारी है और उन्हें यह जानकारी देना जरूरी है।

– मनीष सोनी, उपमंडल अधिकारी हमीरपुर।

किराए संबंधी परिसरों का जब सर्वेक्षण किया जाता है तो उसका सीधा संबंध उसके मालिक से होता है जिसमें गृह कर को दायरे में लाया जाता है।

- संजय कुमार, संपदा अधिकारी, नगर परिषद।

जो कोई भी भवन मालिक किराए पर अपना परिसर देता है उसके किराएदार का, यदि वह प्रवासी है, तो पंजीकरण किया

पंजीकरण संबंधी कामकाज हमारे पास नहीं। **-हरीश गुलेरिया**, थाना प्रभारी।

जाता है। पीजी परिसर का

जांच के दायरे में आएगा। इस बीच, पता चला है कि कई पीजी परिसर बिना अनुमति के चलाए जा रहे हैं जबकि इसकी

सूचना नगर परिषद के पास होनी चाहिए ताकि पता रहे कि वहां रहते लोगों को सुरक्षा मुहैया कौन करा रहा है।

भाजपा नेता पर हमला कर 63 हजार लूटे

शिमला, ९ नवंबर (ब्यूरो)।

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरौली इलाके में भारतीय जनता पार्टी के नेता लखबीर सिंह लक्खी पर हमला करके व बंदूक दिखाकर 63,000 रुपए लूट लिए। वारदात के बाद मौके पर जुटे कुछ स्थानीय लोग भाजपा नेता को अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

पुलिस उपाधीक्षक (हरौली) मोहन रावत ने बताया कि हमले और लूटपाट के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है तथा मामले की जांच जारी है। रावत के अनुसार, घटना बुधवार शाम की है, लक्खी जो एक ट्रांसपोर्टर भी हैं, अपनी कार में सवार होकर टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र से गोंदपुर जयचंद स्थित अपने घर जा रहे थे।

लखबीर सिंह लक्खी पर हमले और लूटपाट के मामले में दो लोगों को किया गिरफ्तार।

पुलिस के मुताबिक, एक गाड़ी ने लक्खी की कार को टक्कर मार दी। जब लक्खी ने कार रोकी तो अन्य वाहनों में सवार लोग तलवारें और लोहे की छड़ें लहराते हुए बाहर आए तथा भाजपा नेता को कार से बाहर निकालकर उनसे मारपीट की। पुलिस के अनुसार, हमले में लक्खी को कुछ गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि लक्खी को पिछले कुछ

दिनों से अज्ञात व्यक्तियों से रंगदारी के लिए फोन आ रहे थे। ऊना से भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने घटना की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था

सार्वजनिक सूचना

मैं, सुनीता देवी (नया नाम) पत्नी स्व. निर्मल कुमार निवासी मकान नंबर 58, ब्लाक-8, पुलिस लाईन, कैथू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश घोषणा करती हं कि मैंने अपना नाम सुनीता (पुराना नाम) से बदलकर सुनीता देवी (नया नाम) कर लिया है। कृपया सभी संबंधित नोट करें।

(लाख रु. में)

समाप्त वर्ष

31 मार्च-23

6,340.80

(3,542.50)

2,470.28

6,278.73

(12.57)

(12.57)

हिते एवं कृते बोर्ड

(DIN:09796568)

पूर्ण कालिक निदेशक

हस्ता/- जितेन्द्रप्रताप रामबहादुर सिंह

अंकेक्षित

कुल्लू के थुआरी में आग लगने से मकान जला

की स्थिति खराब हो गई है।

कुल्लू, ९ नवबर (जनसत्ता)।

कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत लारजी के थुआरी में आग लगने से मकान पूरी तरह जल गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत लारजी पंचायत की थुवारी गांव में दोपहर बाद एक दो मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। पंचायत प्रधान गुड्डू ठाकुर के अनुसार थुवारी गांव में दोपहर दो बजे एक दुकान में आग लगी जिसमें अमर सिंह का गनीमत रही की साथ लगते मकान को स्थानीय ग्रामीणों ने आग की मुआवजा प्रदान किया जाए।



लपटों से बचा लिया। पंचायत प्रधान ने बताया कि उन्होंने इस बारे तहसीलदार सैंज को रिपोर्ट भेजी हैं दो मंजिला मकान जल गया। तथा उन्होंने प्रशासन से मांग की है की प्रभावित परिवार को उचित

ग्रामीणों व राजस्व विभाग के कर्मी में झगड़ा

हमीरपुर, ९ नवंबर (जनसत्ता)।

फहमी को लेकर हंगामा हो गया। गुलेरिया का कहना है कि सूचना महिला पुलिस कर्मचारी को मामले मिलते ही महिला पुलिकर्मियों की जांच करने के लिए जिमा भी सिहत मौके पर पहुंच कर जांच सौंपा गया है। पुलिस से मिली शुरू कर दी है। मामले की जांच जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों पड़ताल महिला कर्मचारी भी कर

पता चला है कि किसी जानकारी को लेकर वहां छात्राओं और सलोनी के पाहलू में ग्रामीणों कर्मचारी के बीच बात ने तूल

और एक राजस्व विभाग के पकड़ लिया और यह हंगामे में कर्मचारी के बीच किसी गलत तब्दील हो गया। एसएचओ हरीश

के बयान भी कलमबद्ध किए हैं। रही हैं।

दिनांक: 09 नंवबर, 2023

स्थानः बद्दी

(ख) तनुकृत

🙎 सामान्य गतिविधियों से अविध के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सहयोगी, कर, विशेष तथा/ असाधारण मदों के

कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सहयोगी, विशेष तथा/ असाधारण मदों के लाभ/(हानि)

पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)

4 कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (सहयोगी, विशेष तथा/असाधारण मदों के लाभ/

अविध के लिए कुल व्यापक आय [अविध के लिए (कर के बाद)लाभ/

(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके]

6 इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- रु. प्रति शेयर)

आय प्रति शेयर (10/- रु. प्रति का) (वार्षिक नहीं)

















